



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2005/फाल्गुन 10, 1926

No. 210]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2005/PHALGUNA 10, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2005

**का.आ. 271(अ).**—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं, आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

**प्रस्तावित संशोधन :**

जोन 'ई' में गाजीपुर स्थित निम्नलिखित पॉकेट के भूमि उपयोग को फूड प्रोसेसिंग सेंटर (मीट) की स्थापना करने और दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अंतर्गत ग्रुप 'एच' श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत निषिद्ध उद्योगों की सूची के विशेष अपवाद के रूप में अति आधुनिक/प्रदूषण रहित इकाई के रूप में बूचड खाना आरंभ करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है :—

अवस्थिति	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि उपयोग ( दिल्ली मुख्य योजना 2001 )	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमा
गाजीपुर	9.36 एकड़	व्यावसायिक ( थोक एवं भांडागार )	व्यापक उद्योग (ग्रुप 'एच' उद्योग)	पूर्व : दिल्ली यू.पी. सीमा दक्षिण : हिंडन कट-नहर/नाला पश्चिम : 45 मीटर/30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क ( मुर्गा मार्किट से सटी हुई ) उत्तर : एच टी लाइन
गाजीपुर	41.35 एकड़	मनोरंजनात्मक	व्यापक उद्योग (ग्रुप 'एच' उद्योग)	पूर्व : शेष एस.एल.एफ. स्थल दक्षिण : बूचड खाना और हरित क्षेत्र फेज-I एवं फेज-II को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क। उत्तर/पश्चिम : प्रस्तावित बायो गैस प्लांट और गाजीपुर डेयरी फार्म।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[ सं. एफ. 3(105)2002-एम.पी. ]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त-एवं-सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY****(Master Plan Section)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st March, 2005

**S.O. 271(E).**—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

**PROPOSED MODIFICATION :**

The change of land use of the following pocket at Gazipur in Zone 'E' is proposed as per the description listed below for setting up Food Processing Centre (Meat) and also to permit the abattoir as an ultramodern/non polluting unit as a specific exception to the list of prohibited industry under Group 'H' category of industries under MPD-2001.

Location	Area in acres	Land use (MPD 2001)	Proposed land use	Boundaries
Gazipur	9.36 acres	Commercial (wholesale & warehousing)	Extensive industry (Group 'H' industry)	East : Delhi U.P. Boundary. South : Hindon-Cut-Canal/Drain. West : 45m/30m R/W Road (adjoining Poultry Market). North : HT Line.
Gazipur	41.35 acres	Recreational	Extensive industry (Group 'H' industry)	East : Remaining SLF site. South : Proposed road for connecting Phase I and Phase II of Slaughter House and Green Area. North/West : Proposed Bio-Gas Plant and Gazipur Dairy Farm.

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Joint Director (MP) 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F. 3(105) 2002-MP]

V. M. BANSAL, Commr-cum-Secy.